

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]	दिल्ली, शनिवार, मई 27, 2017/ज्येष्ठ 6, 1939	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 77
No. 201]	DELHI, SATURDAY, MAY 27, 2017/JYAISTHA 6, 1939	[N.C.T.D. No. 77

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

x'g ¼i fyi &amp;II½ foHkx

vf/kl ¼puk

नई दिल्ली, 26 मई, 2017

l a Qk- 20@23@2000@x'g i q&II@i kVl Qkbly 4525.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 469 तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 375 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, निम्नलिखित व्यक्तियों को, जिन्हें दिल्ली के उच्च न्यायालय के पंजीयक (सतर्कता) की दिनांक 19 मई, 2017 की अधिसूचना संख्या 10/डीएचसी/गजट/विशेष एम एम/2017 के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में विशेष महानगर दण्डाधिकारी की समस्त शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत अपराधिक मामलों की सुनवाई हेतु उन्हें विशेष महानगर दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करते हैं। यह शक्तियां तब तक जारी रहेंगी, जब तक दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें विशेष महानगर दण्डाधिकारी की शक्तियां प्राप्त हैं :-

1. श्री नरेश कुमार
2. श्री ऋषि पाल
3. श्री रणजीत सिंह
4. डॉ. गीता रावत
5. श्री धर्मपाल तुरे
6. श्री नरेन्द्र सिंह हुड्डा
7. सुश्री राजेन्द्र कौर चढ्ढा
8. श्री मानसिंह
9. श्री जसवन्त सिंह
10. श्री सूरज मुख गाबा
11. श्री जितेन्द्र सिंह गुप्ता
12. अरुण कुमार धवन
13. श्री सीबा प्रसाद डे
14. श्री पी. डी. तनेजा

15. श्री अनिल कुमार वाही
16. श्री विजय कुमार खन्ना
17. श्री चन्दर भूषण शर्मा

म्यूनिसिपल दण्डाधिकारी के रूप में नियुक्त उपरोक्त सभी अधिकारी अन्य विशेष महानगर दण्डाधिकारियों की तरह सप्ताह में छः दिन कार्य करेंगे और महीने के दूसरे शनिवार को अवकाश रहेगा और लघु अपराध (विशेष महानगर दण्डाधिकारी द्वारा विचारण), नियमावली 1998 में निहित नियमों के अनुसार अवकाश के पात्र रहेंगे ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ओ. पी. मिश्रा, अतिरिक्त सचिव (गृह)

## HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 26th May, 2017

**No. F. 20/23/2000-HP-II/4525.**—In exercise of the powers conferred by section 469 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) and section 375 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994, (44 of 1994), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to confer upon the following persons, who have been conferred with all power of Special Metropolitan Magistrate in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 18 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), vide Notification No. 10/DHC/GAZ./SPL.MM/2017 dated the 19<sup>th</sup> May 2017 of Registrar (Vigilance), High Court of Delhi, the powers of Municipal Magistrate for the trial of offences under the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and New Delhi Municipal Council Act, 1994, within the National Capital Territory of Delhi for such period till the powers of Special Metropolitan Magistrate conferred upon them by the High Court of Delhi, exist, namely;—

1. Mr. Naresh Kumar
2. Mr. Rishi Pal
3. Mr. Ranjit Singh
4. Dr. Gita Rawat
5. Mr. Dharampal Ture
6. Mr. Narendra Singh Hooda
7. Ms. Ranjinder Kaur Chadha
8. Mr. Man Singh
9. Mr. Jaswant Singh
10. Mr. Suraj Mukh Gauba
11. Mr. Jitender Singh Gupta
12. Mr. Arun Kumar Dhawan
13. Mr. Siba Prasad Dey
14. Mr. P.D.Taneja
15. Mr. Anil Kumar Wahi
16. Mr. Vijay Kumar Khanna
17. Mr. Chander Bhushan Sharma

The above said officers, appointed as Municipal Magistrates, like other Special Metropolitan Magistrates, would work for six days a week with Second Saturday off and would be entitled to leave as per the provisions contained in Delhi Petty Offences (Trial by Special Metropolitan Magistrate) Rules, 1998.

By Order and in the Name of the Lt Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

O. P. MISHRA Addl. Secy. (Home)